



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्क

खंड 30

23 जनवरी, 2015

संख्या 04

## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2014             | 2015             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 17 जनवरी         | 9 जनवरी          | 16 जनवरी         | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>12,709.97</b> | <b>13,810.79</b> | <b>13,935.19</b> | <b>124.40</b> | <b>1,225.22</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 12,709.82        | 13,810.67        | 13,935.06        | 124.39        | 1,225.24        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.15             | 0.12             | 0.12             | 0.01          | -0.02           |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 219.06           | 1.00             | 1.01             | 0.01          | -218.06         |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,188.40         | 3,417.73         | 3,438.95         | 21.23         | 250.55          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 32.46            | 33.83            | 33.28            | -0.55         | 0.82            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 160.16           | 187.64           | 188.37           | 0.73          | 28.21           |
| 2.7 अन्य                                | 161.22           | 463.08           | 608.60           | 145.52        | 447.38          |
| 3 अन्य देयताएं                          | 8,572.47         | 8,161.18         | 7,990.55         | -170.63       | -581.92         |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>25,044.16</b> | <b>26,075.68</b> | <b>26,196.37</b> | <b>120.69</b> | <b>1,152.21</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 16,373.85        | 18,540.27        | 18,620.60        | 80.33         | 2,246.75        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,220.89         | 1,227.23         | 1,227.23         | —             | 6.34            |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 6,700.60         | 5,278.42         | 5,264.90         | -13.52        | -1,435.69       |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 5.36             | 18.70            | 26.72            | 8.02          | 21.37           |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 433.93           | 841.24           | 889.15           | 47.91         | 455.22          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 70.85            | 48.11            | 45.96            | -2.15         | -24.88          |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खज़ाना                              | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 225.49           | 108.51           | 108.60           | 0.09          | -116.89         |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 16 जनवरी, 2015 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                 |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                           |                   |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2014 की समाप्ति पर |                 | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन          | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर   | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                 | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6               | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>19,977.1</b>   | <b>322,135.5</b> | <b>27.1</b>                | <b>2,660.5</b> | <b>1,693.3</b>           | <b>17,912.3</b> | <b>2,046.6</b> | <b>30,054.0</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 18,426.3          | 297,530.2        | 31.2                       | 2,685.0        | 1,817.2                  | 21,170.9        | 2,110.7        | 31,595.6        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,227.2           | 19,377.9         | —                          | —              | -69.0                    | -2,188.9        | 6.3            | -346.6          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 254.4             | 4,109.3          | -3.2                       | -19.3          | -13.9                    | -354.3          | -17.3          | -318.7          |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 69.2              | 1,118.1          | -0.9                       | -5.2           | -41.0                    | -715.4          | -53.1          | -876.3          |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 23 जनवरी 2015 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,392.2 बिलियन | 2015     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                           | 10 जनवरी | 11 जनवरी | 12 जनवरी | 13 जनवरी | 14 जनवरी | 15 जनवरी | 16 जनवरी | 17 जनवरी | 18 जनवरी | 19 जनवरी | 20 जनवरी | 21 जनवरी | 22 जनवरी |
|                                                                                                           | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                              | 3,445.4  | 3,445.4  | 3,383.9  | 3,408.9  | 3,412.5  | 3,412.3  | 3,439.1  |          |          |          |          |          |          |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                         | 101.6    | 101.6    | 99.8     | 100.5    | 100.6    | 100.6    | 101.4    |          |          |          |          |          |          |

# 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 9 जनवरी<br>2015 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                          | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                          |                           | 2013-2014            | 2014-2015      | 2014           | 2015           |
|                                                |                          |                           | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                          |                           |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,065.1                  | -3.8                      | -130.6               | 287.9          | -75.9          | 349.1          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 365.9                    | -17.0                     | -96.4                | 16.2           | 11.7           | 68.7           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 57.4                     | -2.8                      | -0.5                 | -77.6          | -21.4          | -33.0          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                          |                           |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 84,157.3                 | 795.5                     | 7,723.8              | 7,101.7        | 9,905.0        | 8,929.0        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                         |                          | 1.0                       | 11.4                 | 9.2            | 15.2           | 11.9           |
| 2.1.1.1 मांग                                   | 7,393.3                  | -318.2                    | 39.5                 | 254.0          | 631.3          | 730.8          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                 | 76,764.1                 | 1,113.8                   | 7,684.2              | 6,847.7        | 9,273.7        | 8,198.3        |
| 2.2 उधारियां                                   | 2,022.6                  | 6.5                       | 132.4                | -187.8         | 193.9          | -326.5         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,219.2                  | -156.9                    | -50.6                | -164.1         | 204.3          | 153.5          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधारियां</b>              | <b>841.2</b>             | <b>-79.5</b>              | <b>198.4</b>         | <b>425.1</b>   | <b>197.3</b>   | <b>427.0</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>3,925.5</b>           | <b>-93.6</b>              | <b>410.5</b>         | <b>303.4</b>   | <b>257.3</b>   | <b>287.5</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 507.8                    | -52.8                     | 28.0                 | 49.1           | 32.6           | 74.9           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,417.7                  | -40.8                     | 382.5                | 254.3          | 224.7          | 212.6          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                          |                           |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,304.8                  | -41.9                     | -43.0                | 242.5          | 110.6          | 387.0          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 191.3                    | -25.1                     | -78.5                | -86.8          | 7.1            | -26.3          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 169.5                    | 11.0                      | 6.9                  | 2.1            | 39.1           | 35.8           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 340.0                    | 52.9                      | -404.6               | -102.7         | -285.2         | -71.1          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>24,956.7</b>          | <b>559.0</b>              | <b>2,194.2</b>       | <b>2,828.5</b> | <b>2,476.3</b> | <b>2,701.4</b> |
| 6.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                          | 2.3                       | 10.9                 | 12.8           | 12.5           | 12.1           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 24,936.6                 | 559.0                     | 2,201.7              | 2,824.7        | 2,482.3        | 2,698.4        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 20.0                     | -0.1                      | -7.5                 | 3.8            | -6.0           | 3.0            |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>63,910.3</b>          | <b>443.3</b>              | <b>5,114.1</b>       | <b>3,969.3</b> | <b>7,305.4</b> | <b>6,191.5</b> |
| 7.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                          | 0.7                       | 9.7                  | 6.6            | 14.5           | 10.7           |
| 7.1.1 खाद्य ऋण                                 | 1,092.3                  | 9.1                       | 172.9                | 107.5          | 72.9           | -44.8          |
| 7.1.2 खाद्येतर ऋण                              | 62,818.0                 | 434.3                     | 4,941.3              | 3,861.8        | 7,232.5        | 6,236.3        |
| 7.2 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                  | 61,663.4                 | 370.4                     | 4,960.1              | 3,972.6        | 7,023.0        | 6,111.5        |
| 7.2.1 देशी बिल-खरीदे गए                        | 348.9                    | 22.1                      | 150.3                | -35.5          | 170.4          | -50.1          |
| 7.2.2 भुनाए गए                                 | 1,176.5                  | 19.1                      | -71.8                | 70.7           | 33.4           | 153.7          |
| 7.2.3 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 264.0                    | 28.5                      | 43.5                 | 1.1            | 44.1           | 5.6            |
| 7.2.4 भुनाए गए                                 | 457.5                    | 3.3                       | 32.0                 | -39.6          | 34.6           | -29.2          |

# 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2014        | 2014        |             | 2015        |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 17 जनवरी    | 19 दिसम्बर  | 26 दिसम्बर  | 2 जनवरी     | 9 जनवरी     | 16 जनवरी    |
|                                                     | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| <b>अनुपात</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00       | 22.00       | 22.00       | 22.00       | 22.00       | 22.00       |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | ..          | ..          | 4.82        | ..          | 4.66        | ..          |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | ..          | ..          | 76.13       | ..          | 75.94       | ..          |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | ..          | ..          | 55.91       | ..          | 55.89       | ..          |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | ..          | ..          | 29.27       | ..          | 29.65       | ..          |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | ..          | ..          | 35.99       | ..          | 39.83       | ..          |
| <b>दरें</b>                                         |             |             |             |             |             |             |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 7.75        | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 7.75        |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 6.75        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 6.75        |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.75        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 8.75        |
| बैंक दर                                             | 8.75        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 8.75        |
| आधार दर                                             | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.00/9.10   | 8.00/9.00   | 8.00/9.00   | 8.00/9.00   | 8.00/8.75   | 8.00/8.75   |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 8.57        | 8.33        | 8.10        | 8.22        | 8.03        | 7.94        |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.73        | 8.35        | 8.35        | 8.31        | 8.39        | 8.39        |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.71        | 8.38        | ..          | 8.36        | ..          | 8.25        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..          | ..          | 8.22        | ..          | 8.18        | ..          |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.66        | 7.99        | 8.01        | 7.90        | 7.89        | 7.75        |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिआ</b>        |             |             |             |             |             |             |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 61.35       | 63.07       | 63.64       | 63.29       | 62.40       | 61.89       |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 83.52       | 77.46       | 77.74       | 76.31       | 73.61       | 72.01       |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह               | 8.80        | 8.09        | 7.92        | 7.96        | 8.08        | 7.95        |
| 3-माह                                               | 8.74        | 7.33        | 7.23        | 7.58        | 7.76        | 7.63        |
| 6-माह                                               | 8.25        | 7.17        | 7.13        | 7.39        | 7.50        | 7.21        |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2014           | 2015      | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 9 जनवरी   |                            |      | 2013-2014            |       | 2014-2015 |       | 2014         |      | 2015     |       |
|                                                    | राशि           | राशि      | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम <sub>3</sub>                                    | 94,973.3       | 103,466.4 | 965.9                      | 0.9  | 8,906.1              | 10.6  | 8,493.1   | 8.9   | 11,695.6     | 14.4 | 10,662.1 | 11.5  |
| <b>1 घटक</b>                                       |                |           |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 12,483.4       | 13,416.6  | 155.1                      | 1.2  | 855.7                | 7.5   | 933.2     | 7.5   | 1,172.0      | 10.6 | 1,150.4  | 9.4   |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा राशि                    | 8,043.9        | 8,347.8   | -316.6                     | -3.7 | 10.9                 | 0.1   | 304.0     | 3.8   | 683.4        | 10.0 | 804.7    | 10.7  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि                  | 74,426.3       | 81,616.3  | 1,123.2                    | 1.4  | 8,048.3              | 12.4  | 7,190.0   | 9.7   | 9,830.5      | 15.6 | 8,645.1  | 11.8  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि            | 19.7           | 85.6      | 4.2                        | 5.2  | -8.8                 | -27.0 | 66.0      | 335.7 | 9.6          | 68.7 | 62.0     | 262.1 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                |           |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 30,386.0       | 31,444.2  | 613.6                      | 2.0  | 2,841.6              | 10.5  | 1,058.2   | 3.5   | 3,387.7      | 12.8 | 1,512.5  | 5.1   |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 6,987.1        | 5,131.6   | 58.9                       |      | 495.1                |       | -1,855.5  |       | 722.8        |      | -1,269.3 |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 23,398.9       | 26,312.6  | 554.6                      | 2.2  | 2,346.5              | 11.1  | 2,913.6   | 12.5  | 2,665.0      | 12.8 | 2,781.8  | 11.8  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 64,424.8       | 68,568.2  | 468.3                      | 0.7  | 5,473.7              | 9.7   | 4,143.3   | 6.4   | 7,810.6      | 14.4 | 6,415.8  | 10.3  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 88.4           | 60.6      | 3.1                        |      | 42.6                 |       | -27.8     |       | 31.8         |      | -12.6    |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 64,336.4       | 68,507.6  | 465.2                      | 0.7  | 5,431.1              | 9.6   | 4,171.2   | 6.5   | 7,778.9      | 14.3 | 6,428.4  | 10.4  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 19,239.5       | 20,738.9  | -321.7                     | -1.5 | 2,431.7              | 14.9  | 1,499.4   | 7.8   | 2,549.3      | 15.7 | 1,940.6  | 10.3  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 173.4          | 186.1     | —                          | —    | 15.1                 | 9.9   | 12.7      | 7.3   | 20.1         | 13.5 | 17.6     | 10.4  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 19,250.4       | 17,471.0  | -205.7                     | -1.2 | 1,856.1              | 11.3  | -1,779.4  | -9.2  | 2,072.2      | 12.8 | -775.7   | -4.3  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 8,433.2        | 8,215.0   | -398.3                     | -4.6 | 1,767.9              | 25.5  | -218.2    | -2.6  | 1,489.8      | 20.7 | -477.9   | -5.5  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                                  | 2014           | 2015     | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 16 जनवरी |                            |      | 2013-2014            |       | 2014-2015 |       | 2014         |      | 2015     |       |
|                                                                  | राशि           | राशि     | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 17,327.4       | 17,865.1 | 142.2                      | 0.8  | 1,131.8              | 7.5   | 537.7     | 3.1   | 1,484.5      | 10.0 | 1,584.4  | 9.7   |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 संचालन में करेंसी                                            | 13,010.7       | 14,122.4 | 124.4                      | 0.9  | 968.6                | 8.1   | 1,111.7   | 8.5   | 1,262.7      | 10.9 | 1,244.1  | 9.7   |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा राशि                         | 4,297.0        | 3,660.6  | 21.4                       | 0.6  | 174.3                | 5.4   | -636.4    | -14.8 | 214.9        | 6.8  | 279.6    | 8.3   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि                          | 19.7           | 82.1     | -3.6                       | -4.1 | -11.1                | -34.2 | 62.4      | 317.6 | 6.9          | 48.3 | 60.7     | 284.7 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 6,987.1        | 4,958.2  | -173.5                     |      | 582.0                |       | -2,028.9  |       | 745.1        |      | -1,529.6 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 6,976.4        | 4,931.9  | -181.5                     |      | 577.9                |       | -2,044.6  |       | 741.3        |      | -1,551.0 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 574.9          | 915.9    | 64.2                       |      | 83.7                 |       | 341.0     |       | 237.9        |      | 398.1    |       |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 486.5          | 857.5    | 66.4                       |      | 32.5                 |       | 371.0     |       | 190.9        |      | 421.5    |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 18,025.3       | 19,847.5 | 80.3                       | 0.4  | 2,013.8              | 12.9  | 1,822.3   | 10.1  | 1,947.0      | 12.4 | 2,253.1  | 12.8  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 173.4          | 187.4    | —                          | —    | 15.1                 | 9.9   | 14.0      | 8.1   | 20.1         | 13.5 | 18.8     | 11.2  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 8,433.2        | 8,043.9  | -171.2                     | -2.1 | 1,562.7              | 22.6  | -389.3    | -4.6  | 1,465.5      | 20.9 | -443.9   | -5.2  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                                          |                                                        | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन (+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
|               | रिपो                  | रिवर्स रिपो | सावधि रिपो/एक दिवसीय परिवर्तनशील रिपो दर | सावधि रिवर्स रिपो/एक दिवसीय परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर |        |                      | विक्रय         | क्रय |                                                      |
|               | 1                     | 2           | 3                                        | 4                                                      |        |                      | 5              | 6    |                                                      |
| 12 जनवरी 2015 | 143.08                | 13.98       | 150.02                                   | —                                                      | 15.91  | 32.84                | 5.05           | —    | 322.82                                               |
| 13 जनवरी 2015 | 206.38                | 29.33       | 248.36                                   | —                                                      | 0.45   | -6.00                | 3.95           | —    | 415.91                                               |
| 14 जनवरी 2015 | 207.36                | 21.09       | 187.80                                   | —                                                      | 5.80   | 6.00                 | 5.30           | —    | 380.57                                               |
| 15 जनवरी 2015 | 201.64                | 17.83       | 137.60                                   | —                                                      | 0.20   | -28.05               | —              | —    | 293.56                                               |
| 16 जनवरी 2015 | 208.23                | 32.19       | 211.16                                   | —                                                      | —      | 7.65                 | —              | —    | 394.85                                               |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2013         |              | 2014         |              | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                     | नवम्बर       | दिसम्बर      | नवम्बर       | दिसम्बर      | माह                                | मार्च       | वर्ष       |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5                                  | 6           | 7          |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>139.4</b> | <b>138.0</b> | <b>145.5</b> | <b>144.9</b> | <b>- 0.4</b>                       | <b>4.9</b>  | <b>5.0</b> |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 141.7        | 140.1        | 147.5        | 146.7        | - 0.5                              | 5.0         | 4.7        |
| 1.2 शहरी                                                            | 136.4        | 135.3        | 142.8        | 142.5        | - 0.2                              | 4.8         | 5.3        |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>243.0</b> | <b>239.0</b> | <b>253.0</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>                          | <b>..</b>   | <b>..</b>  |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>181.5</b> | <b>179.6</b> | <b>181.5</b> | <b>179.8</b> | <b>-0.9</b>                        | <b>-0.3</b> | <b>0.1</b> |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 254.9        | 243.7        | 252.4        | 249.0        | -1.3                               | 4.0         | 2.2        |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 209.6        | 211.1        | 199.3        | 194.6        | -2.4                               | -9.2        | -7.8       |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 152.3        | 152.5        | 155.4        | 154.9        | -0.3                               | 0.5         | 1.6        |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 2                       | 3                     |
| 12 दिसम्बर 2014 | 2,402.8                  | 253.9                   | 8.21 - 8.82           |
| 26 दिसम्बर 2014 | 2,618.8                  | 323.8                   | 8.24 - 8.74           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 2                       | 3                     |
| 15 दिसम्बर 2014 | 2,342.3                  | 562.1                   | 8.02 - 11.58          |
| 31 दिसम्बर 2014 | 2,082.5                  | 436.4                   | 7.98 - 12.61          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |              |               |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                          | 17 जनवरी 2014 | 9 जनवरी 2015 | 16 जनवरी 2015 |
|                          | 1             | 2            | 3             |
| 1 मांग मुद्रा            | 212.4         | 176.1        | 167.6         |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 86.0          | 86.7         | 67.1          |
| 3 सीबीएलओ                | 1,040.7       | 1,236.7      | 1,270.5       |
| 4 बाजार रिपो             | 850.8         | 1,200.7      | 1,178.5       |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रिपो | —             | —            | —             |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 16 जनवरी, 2015 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                   | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                   | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय         | —           | —                 | 550.8         | 557.3   |
| 91-दिवसीय         | 352.0       | 297.8             | 660.8         | 1,809.0 |
| 182-दिवसीय        | 275.8       | 324.8             | 15.4          | 719.5   |
| 364-दिवसीय        | 419.0       | 618.9             | 12.0          | 1,453.6 |
| सीएमबी            | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि             |                               |         | जुटाई गई निवल राशि            |                               |         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 2014-15<br>(16 जनवरी 2015 तक) | 2013-14<br>(17 जनवरी 2014 तक) | 2013-14 | 2014-15<br>(16 जनवरी 2015 तक) | 2013-14<br>(17 जनवरी 2014 तक) | 2013-14 |
|                  | 1                             | 2                             | 3       | 4                             | 5                             | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 5,250.0                       | 5,395.0                       | 5,635.0 | 3,899.7                       | 4,647.6                       | 4,684.9 |
| 2. राज्य सरकारें | 1,730.1                       | 1,524.1                       | 1,966.6 | 1,436.6                       | 1,205.4                       | 1,645.9 |

wss के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां wss हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।  
समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री संजय कुमार हांसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।